



दिनांक 17.09.2022

**जनपद अम्बेडकरनगर थाना जहांगीरगंज पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वांछित चार शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 15000 रुपए, एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोबाइल फोन बरामद।**

अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान लूट डकैती /चोरी /नकबजनी रोकथाम तथा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 16.09.2022 को जहांगीरगंज पुलिस, स्वाट/सर्विलांस की टीम के साथ बावली चौक पर तलाश वांछित अभियुक्त व क्षेत्र देखभाल एव शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। तत्पश्चात दो मोटरसाइकिल पर सवार चार व्यक्ति तिलकटण्डा से बावली चौक की तरफ आते हुए दिखाई दिये जिनको संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पी0एच0सी0 के बगल में खडण्जा मार्ग ग्राम नरियाव के पास घेराबन्दी कर समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पुलिस पूछताछ में अपना नाम 1. अंकित यादव उर्फ टोनी पुत्र हरिशचन्द्र निवासी ग्राम महुआना थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर, 2. सूरजीत यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी ग्राम रामनगर महुआ जेठावा थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर 3. योगेन्द्र प्रजापति पुत्र स्व0 निन्हकू प्रजापति निवासी ग्राम लखनडीह थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 4. लवकुश यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम हरपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर बताया तथा पूछताछ के उपरान्त ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-225/22 धारा-394 भादवि में वांछित थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों की तलाशी लेने के उपरान्त 01-अंकित यादव उर्फ टोनी से एक अदद मोबाइल वीवो 12, व 5000 रुपये बरामद 02- अभियुक्त सूरजीत यादव से एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 4000 रुपये बरामद 03- अभियुक्त योगेन्द्र प्रजापति से 2200 रुपये बरामद 04- अभियुक्त लवकुश यादव 3800 रुपये बरामद किए गये। अभियुक्तों को गिरफ्तार थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के अपराधी है जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके है।

**विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण**

01. अंकित यादव उर्फ टोनी (उम्र 22 वर्ष) पुत्र हरीशचन्द्र निवासी महुआना थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
02. सूरजीत यादव (उम्र 24 वर्ष) पुत्र रामरूप यादव निवासी रामनगर महुआर जेठावा थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।
03. योगेन्द्र प्रजापति (उम्र 20 वर्ष) पुत्र स्व0 निन्हकू प्रजापति निवासी ग्राम लखनडीह थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
04. लवकुश यादव (उम्र 19 वर्ष) पुत्र राजाराम यादव निवासी हरपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

**विवरण अपराधिक इतिहास (अंकित यादव उर्फ टोनी)**

01. मु0अ0सं0 225/22 धारा 394/34/411 भा0द0वि0 थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
02. मु0अ0सं0 197/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।
03. मु0अ0सं0 155/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
04. मु0अ0सं0 119/17 धारा 392/506/411 भा0द0वि0 थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
05. मु0अ0सं0 92/22 धारा 379 भा0द0वि0 थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

**विवरण अपराधिक इतिहास (सूरजीत यादव)**

01. मु0अ0सं0 225/22 धारा 394/34/411 भा0द0वि0 थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
02. मु0अ0सं0 197/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।
03. मु0अ0सं0 155/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
04. मु0अ0सं0 92/22 धारा 379 भा0द0वि0 थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।
05. मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

### विवरण अपराधिक इतिहास (योगेन्द्र प्रजापति)

01. मु0अ0स0 225/22 धारा 394/34/411 भा0द0वि0 थाना जहांगीरगंज थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
02. मु0अ0स0 197/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना अहिरौली थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
03. मु0अ0स0 155/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

### विवरण अपराधिक इतिहास (लवकुश यादव)

01. मु0अ0स0 225/22 धारा 394/34/411 भा0द0वि0 थाना जहांगीरगंज थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
02. मु0अ0स0 197/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना अहिरौली थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।
03. मु0अ0स0 155/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना राजेसुल्तानपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

### बरामदगी विवरण –

01. एक अदद मोबाइल फोन (वीवो 12)
02. 15000 रुपये।
03. एक अदद तमंचा 315 बोर।
04. 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
- 05- एक अदद बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल।
- 06- एक अदद हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटरसाइकिल।

### गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम (थाना जहांगीरगंज)

01. एस0ओ0 श्री विजय प्रताप तिवारी (मय टीम)
02. स्वाट प्रभारी श्री संजय सिंह (मय टीम)
03. उ0नि0 श्री अजय सिंह (सर्विलांस प्रभारी मय टीम)